



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 844]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-209/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (उपाध्यक्ष का निर्वाचन) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 1 में, उप-नियम (1) में, शब्द “उपाध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष तथा” अन्तःस्थापित किया जाये।
- नियम 2 में,—
(एक) खण्ड (ख) में, शब्द “अध्यक्ष तथा” का लोप किया जाये; और
(दो) खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
“(ड) “पीठासीन प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;”
- नियम 3 में, उप-नियम (1) में, शब्द “उपाध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष तथा” अन्तःस्थापित किया जाये।
- नियम 4 में,—
(एक) उप-नियम (1) में, शब्द “उपाध्यक्ष” के पूर्व, शब्द “अध्यक्ष तथा” अन्तःस्थापित किया जाये; और
(दो) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
“(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों के लिये पृथक से नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।”
- नियम 6 में,—
(एक) उप-नियम (2) में, खण्ड (क) में, शब्द “उपाध्यक्ष” के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह “यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष” प्रतिस्थापित किया जाये; और
(दो) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
“(5) उप-नियम (1) से (4) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के लिये पृथक-पृथक की जायेगी।”

6. नियम 8 में, शब्द "पीठासीन प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद हेतु" अंतःस्थापित किया जाये।
7. नियम 9 में,—
(एक) उप-नियम (1) में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अन्तःस्थापित किया जाये; और
(दो) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
“(3) उप-नियम (1) तथा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के लिये पृथक-पृथक की जायेगी।”
8. नियम 10 में,—
(एक) उप-नियम (1) में, शब्द एवं चिन्ह "ताला खोले बिना निकाले न जा सकते हों।" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अलग-अलग मतपेटी का उपयोग किया जायेगा तथा मतपेटी पर प्रमुख रूप से, यथास्थिति, शब्द 'अध्यक्ष' या 'उपाध्यक्ष' अंकित किया जायेगा।" जोड़ा जाये।
(दो) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—
“(5) मतदान कमशः पहले अध्यक्ष के लिए और तत्पश्चात् उपाध्यक्ष के लिए की जायेगी।”
9. नियम 11 में, शब्द "पीठासीन प्राधिकारी" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "कमशः पहले अध्यक्ष से संबंधित और तत्पश्चात् उपाध्यक्ष से संबंधित" अंतःस्थापित किया जाये।
10. नियम 13 में, शब्द "मत गणना पूरी हो जाने पर" के पूर्व, शब्द एवं चिन्ह "कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद हेतु" अंतःस्थापित किया जाये।
11. नियम 16 में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंतःस्थापित किया जाये।
12. प्ररूप-अ में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।
13. प्ररूप-आ में, शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "अध्यक्ष/उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 1-209/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-209/2019/18 दिनांक 16-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 16th December 2019

NOTIFICATION

No. F 1-209/2019/18.— In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 43 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipalities (Election of Vice-President) Rules, 1998, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In rule 1, in sub-rule (1), before the word, Vice-President", the words "President and" shall be inserted.
2. In rule 2,-
(i) in clause (b), the words "the President and" shall be omitted; and
(ii) for clause (e), the following shall be substituted, namely :-

- "(e) "Presiding Authority" means an officer authorized by the State Election Commission under sub-section (2) of Section 55 of the Act;"
3. In rule 3, in sub-rule (1), before the word "Vice-President", the words "President and" shall be inserted.
 4. In rule 4,-
 - (i) in sub-rule (1), before the word "Vice-President", the words "President and" shall be inserted; and
 - (ii) after sub-rule (2), the following shall be added, namely:-

"(3) Separate nomination papers will have to be submitted for the posts of President and the Vice-President."
 5. In rule 6,-
 - (i) in sub-rule (2), in clause (a), for the words and symbol, "Vice-President", the words and symbol "President or Vice-President, as the case may be," shall be substituted; and
 - (ii) after sub-rule (4), the following shall be added, namely:-

"(5) The procedure mentioned in sub-rule (1) to (4) shall be followed separately for the posts of the President and Vice-President."
 6. In rule 8, after the words and symbol "The presiding authority shall," the words and symbol "Sequentially, for the posts of President and the Vice-President," shall be inserted.
 7. In rule 9,-
 - (i) in sub-rule (1), before the words and symbol "Vice-President", the words "President and" shall be inserted; and
 - (ii) after sub-rule (2), the following shall be added, namely:-

"(3) The process mentioned in sub-rule (1) and (2) shall be followed separately for the posts of the President and Vice-President."
 8. In rule 10,-
 - (i) in sub-rule (1), after the words and symbol "box being unlocked." the words and symbol "Separate ballot-boxes shall be used for the election of the President and the Vice-President, and, as the case may be, the word 'President' or 'Vice-President' shall be prominently marked on the ballot-box." shall be added; and
 - (ii) after sub-rule (4), the following shall be added, namely:-

"(5) The voting shall be conducted sequentially first for the President and thereafter for the Vice-President."
 9. In rule 11, after the words "The presiding authority shall", the words and symbol "sequentially, first in respect of the President and thereafter in respect of the Vice-President," shall be inserted.
 10. In rule 13, after the words "has been completed", the words and symbol "sequentially, for the posts of the President and Vice-President," shall be inserted.
 11. In rule 16, before the words and symbol "Vice-President", the words "President or" shall be inserted.
 12. In Form-A, for the words and symbol "Vice-President", wherever they occur, the words and symbol "President/Vice-President" shall be substituted.
 13. In Form-B, for the words and symbol "Vice-President", the words and symbol "President/Vice-President" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.